



जन स्वास्थ्य अभियान राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार सम्मेलन

11 और 12 दिसंबर, 2025 | जवाहर भवन, नई दिल्ली

कार्यक्रम विवरण

पहला दिवस: 11 दिसंबर

समय	सत्र	संचालन
9:00 - 10:00 बजे	नाश्ता और पंजीकरण	
10:00 बजे - 10:30 बजे	स्वागत, उद्घाटन गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ: BGVS और अन्य सांस्कृतिक समूह	ऋचा चिंतन
10:30 बजे - 1 बजे	उद्घाटन सत्र: <ul style="list-style-type: none">अभय शुक्ला (JSA): सम्मेलन का परिचयनिखिल डे, मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS)मधुमिता बनर्जी, आशा वर्कर्स फेडरेशनरमा बारू, पूर्व प्रोफेसर, JNUश्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाजां ड्रेज़, प्रमुख अर्थशास्त्री और भोजन अधिकार अभियान	संचालक: मैमूना मोल्लाह और ऋचा चिंतन
1 बजे - 2 बजे	दोपहर का भोजन	

2 - 5:30 बजे: समानांतर सत्र

समय	जगह - 1	जगह - 2
2 बजे - 3.30 बजे	PS 1: सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करना और स्वास्थ्य का अधिकार अध्यक्ष: टी. सुंदररमन सह-पैनलिस्ट: <ul style="list-style-type: none">अमीरखान: पीपल्स हेल्थ असेंबली, तमिलनाडुछाया: राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार का अनुभवमुबारक सानी: केरल का सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करने का अनुभवचंद्रकांत लहरिया: भारतीय राज्यों की प्राथमिक स्वास्थ्य पहलों का बनना और बिगड़ना: दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिक का एक केस स्टडीप्रमोद तिवारी: उत्तराखंड सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मज़बूत करने में जन आंदोलन का अनुभव	PS 2: स्वास्थ्य अर्थ व्यवस्था, बीमा, जेब से खर्च (OOP) अध्यक्ष: फुआद हलीम सह-पैनलिस्ट: <ul style="list-style-type: none">रवि दुग्गल: स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्चरेमा नागराजन: घटता केन्द्रीय स्वास्थ्य बजट और स्वास्थ्य उपकर (सैस) के परिणामइंद्रनील: OOP में 'गिरावट' की वास्तविकताऋचा: GFHI और वित्तीय सुरक्षा का भ्रमसुनीता: ज़मीनी स्तर पर बजट की वकालतज़मीनी आवाज़ें: रंजू सिंह (उत्तर प्रदेश) और अजय पटेल (मध्य प्रदेश)
3.30 से 4 बजे	चाय	

समय	जगह - 1	जगह - 2
4 बजे - 5.30 बजे	<p>PS 3: सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण का विरोध और PPPs की आलोचना</p> <p>अध्यक्ष: बिजाँय रॉय</p> <p>प्रारम्भिक टिप्पणी: इंदिरा</p> <p>सह-पैनलिस्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> • श्वेता (महाराष्ट्र) • शुभम (मुंबई) • मित्रांशु (गुजरात) • असीम सरकार (झारखंड) • भोगेश शोलापुर (कर्नाटक) • कामेश्वर (आंध्र प्रदेश) • सुचरिता (AIFAP) <p>संचालन: प्रसन्ना</p>	<p>PS 4: स्वास्थ्य में लिंग और सामाजिक न्याय</p> <p>अध्यक्ष: मैमूना मोल्लाह</p> <p>सह-पैनलिस्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> • शांति - श्रम कानून और महिला श्रमिकों का स्वास्थ्य • मीरा संघमित्रा - LGBTQIA+ समुदाय और स्वास्थ्य अधिकार • आयशा - विकलांगता और स्वास्थ्य अधिकार • देवकी नांबियार - बढ़ती उम्र में स्वास्थ्य चुनौतियाँ - मेनोपॉज, हिस्टेरेक्टॉमी और बुजुर्गों की अन्य स्वास्थ्य समस्याएं • शकील-उर-रहमान - स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में भेदभाव • गवाहियाँ - भारती कुशवाहा (आशा कर्मी) और अन्य साथी

सांसदों और राजनीतिक पार्टियों के साथ संवाद

समय	सत्र	संचालन
5:30 बजे - 6.00 बजे	चाय	
6 बजे - 8 बजे	<p>सांसदों से संवाद</p> <p>'कॉल टू एक्शन' पर समर्थन लेना</p> <p>JSA प्रस्ताव साझा करना: टी सुंदरारमन</p> <ul style="list-style-type: none"> • शशिकांत सेंथिल, सांसद, लोक सभा, कांग्रेस • अमरा राम, सांसद, लोक सभा, सी पीआई (एम) • राजा राम सिंह, सांसद लोक सभा, सी पी आई (एम एल) • प्रद्युत बोरदोलोई, सांसद, लोक सभा, कांग्रेस • संधोष कुमार, राज्य सभा सांसद, सी पी आई • मनोज झा, सांसद, राज्य सभा, राजद (TBC) • कनिमोड़ी एनवीएन सोमू, सांसद राज्य सभा, डी.एम.के • सचिनाथनथम, सांसद लोक सभा, सी पी आई (एम) 	<p>संचालन: छाया</p> <p>अध्यक्ष: दीपा सिन्हा</p>
	<p>दिल्ली युवा कलाकारों का मंच (DYAF)</p> <p>द्वारा सांस्कृतिक नाटक</p>	सदरे आलम
8:30 बजे - 9:30 बजे	रात्री भोजन	

दूसरा दिवस: 12 दिसंबर

सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक: समानांतर सत्र

समय	जगह - 1	जगह - 2
9.30 से 11 बजे	<p>PS 5: निजी स्वास्थ्य सेवाओं का नियंत्रण:</p> <p>संचालन: प्रसन्न</p> <ul style="list-style-type: none"> मरीजों के अधिकारों के उल्लंघन की गवाहियाँ - शिशिर चंद और हिमांशु कानूनी नियम - शिवांगी राय / सूरज सनप मरीजों के अधिकार चार्टर (खादर मीरान) 'नॉट-फॉर-प्रॉफिट' (गैर-सरकारी) सेक्टर की भूमिका - अभिजीत संगमा महाराष्ट्र में मरीजों के अधिकारों का अभियान - विनोद शेंडे सुप्रीम कोर्ट में JSA की जन हित याचिका (PIL) - अभय शुक्ला 	<p>PS 6: सभी के लिए दवाइयाँ सुनिश्चित करना</p> <p>संचालन: ज्योत्सना सिंह</p> <ul style="list-style-type: none"> शांतनु मित्रा: दवाओं की कीमत छाया पचौली/रामेश्वर: मुफ्त दवाएँ बिस्वजीत धार: दवाओं की उत्पादन क्षमता और सार्वजनिक संस्थानों (PSUs) की भूमिका मरीजों के समूह - SMA, DNP+, GCTA के प्रतिनिधि
11 - 11:30	चाय	
11.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक	<p>PS 7: स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए न्याय:</p> <p>अध्यक्ष: आर. एस. दहिया</p> <p>संचालन: सतनाम</p> <p>सह-पैनलिस्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> तमोनश चौधरी, अभय मंच गुलाम रब्बानी, नर्सिंग यूनियन सुनीता-आशा वर्कर्स यूनियन DBC यूनियन- AICCTU PMSF प्रताप, CHO एसोसिएशन और जन आरोग्य अभियान द्वारा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चार्टर 	<p>PS 8: स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक: पर्यावरण और जलवायु संकट के संदर्भ में स्वास्थ्य और पोषण के लिए कार्य</p> <p>अध्यक्ष: सुहास कोहलेकर, NAPM</p> <p>संचालन: रमन VR, PHRN</p> <p>सह-पैनलिस्ट:</p> <ul style="list-style-type: none"> सौम्या दत्ता (SAPACC और NACEJ) राजीव दासगुप्ता, CSMCH, JNU डी रघुनाथन, DSF/ AIPSN शेख गुलाम रसूल, पर्यावरण अभियान, J&K दीपा सिन्हा, भोजन अधिकार अभियान <p>गवाहियाँ: लू (गरम लहर) और वायु प्रदूषण के दौरान स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ: डॉ. ब्रजेश शर्मा/डॉ. अजय चौहान, और कुछ जमीनी स्तर के अनुभव।</p>

समय	सत्र	संचालन
दोपहर 1 से 2 बजे	दोपहर का भोजन	
दोपहर 2 बजे - 4 बजे	<p>समापन सत्र:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ ग्लोबल हेल्थ वॉच 7 का लॉन्च ➤ रेनू खन्ना द्वारा किताब का विमोचन ➤ BGVS हिमाचल टीम द्वारा ड्रग्स के दुरुपयोग पर वेब सीरीज़ का विमोचन <p>सत्रों से निकले कार्य बिन्दु पर संक्षिप्त प्रस्तुति (प्रत्येक 3 मिनट)</p> <p>एक्शन एजेंडा: आगे की राह: सह-आयोजक मंचों के साथियों की टिप्पणियाँ (प्रत्येक 5 मिनट)</p> <ul style="list-style-type: none"> • आशा मिश्रा- AIPSN; • मीरा संघमित्रा- NAPM; • आयशा/दीपा- भोजन अधिकार अभियान • मैमूना- AIDWA; • बेज़वाड़ा विल्सन- सफाई कर्मचारी आंदोलन • कोनिनिका- NFIW; • लून- DNP+ • मुरली- नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड (NPRD), • सुचरिता- AIFAP • ओ पी भुरैता- BGVS <p>समापन गीत / सांस्कृतिक प्रस्तुति</p>	<p>सह-संचालन:</p> <p>इंद्रनील और सुनीता सिंह</p>
शाम 4- 5 बजे	पत्रकार वार्ता	ज्योत्सना सिंह
शाम 5 - 7.30 बजे	JSA NCC मीटिंग - जवाहर भवन हॉल	

नोट: सम्मेलन में सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण विषयों पर 8 समानांतर सत्र का आयोजन हो रहा है, जिसमें साथी सहभागी हो पाएंगे: पहले दिन (दोपहर भोजन के बाद) 4 समानांतर सत्र और दूसरे दिन (दोपहर भोजन से पहले) 4 समानांतर सत्र।